

हॉस्पिटलिटी सेवाएं: लॉकडाउन के कारण फंसे पर्यटकों तथा व्यक्तियों, चिकित्सा एवं आपातकालीन कर्मचारी, वायु एवं समुद्री कर्मिंदल को जगह देने वाले होटल/होमस्टे/लॉज एवं मोटल के लिए

- परिसर की साफ-सफाई को सुनिश्चित करें तथा उन्हें नियमित रूप से सैनिटाइज करें।
- नियमित रूप से कीटाणुनाशक रसायनों से सतहों पर पोंछा लगाएं।
- कमरों में ही नाश्ता एवं खाना परोसें। खान/नाश्ता परोसने वाले वेटर सामाजिक दूरी बरकरार रखें।
- हैंड रब डिस्पेंसर की व्यवस्था रखें तथा उसे नियमित रूप से भरते रहें।
- इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक कर्मचारी, नियोक्ता तथा अतिथि अपने हाथों को नियमित रूप से धोया करें।
- हैंड वाश तथा अन्य चेतावनियों के लिए साइनेज लगाएं।
- कर्मरत लोगों को खांसी अथवा जुकाम होने पर उनके लिए टिशू पेपर की व्यवस्था करें। साथ में इस्तेमाल किए गए टिशू के सुरक्षित रूप से फेकने के लिए बंद कूड़ेदानों का भी प्रावधान करें।
- रिसिप्शन काउंटर पर आने वाले अतिथियों के लिए 1 से 1.5 मीटर की दूरी बरकरार रखने की व्यवस्था करें।
- संबंधित लक्षणों से ग्रस्त किसी भी संदिग्ध/संदेहास्पद अथवा कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को तुरंत अलग रखने की व्यवस्था करें तथा उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दें।
- आगंतुकों के नाम, पता, दूरभाष संख्या, ई-मेल आईडी के साथ एक लॉगबुक बनाएं तथा उनका फोटो आईडी तथा अन्य विवरण संग्रह करें।
- किसी भी आपातकालीन परिस्थिति/एकांत रखने के उद्देश्य से कुछ कमरे/जगह खाली रखें।
- सरकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- सभी कर्मचारीगण, प्रबंधन के लोग तथा अतिथिगण सामाजिक दूरी का पालन करें तथा एक दूसरों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें।
- सरकारी दिशानिर्देशों में उल्लेखित श्रेणियों के अलावा अन्य किसी भी आगंतुक को ठहरने की अनुमति न दें।
- हाथ न मिलाएं। अतिथि तथा अन्य व्यक्ति एक दूसरे को स्पर्श किए बगैर अभिवादन करें।